



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कन्नौज श्री प्रशान्त वर्मा द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कन्नौज डॉ. श्री अरविन्द कुमार के कुशल निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय छिबरामऊ जनपद कन्नौज श्रीमान शिवकुमार थापा के निकट पर्यवेक्षण में मुझ थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश मय 30नि0 रज्जनलाल मय हमराही पुलिस बल के थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 53/2021 धारा- 307/120बी भा०द०वि० में नामित **अभि० दीपू उर्फ सुमित बाबू पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी** को गिरफ्तार किया गया। अभि० उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी की गयी, व बरामदगी के आधार पर अभि० उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 71/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक- 18.05.2021 को नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र कुमार यादव के साथी/प्रतिनिधि एवं समस्त प्रधानी कार्य देखने वाले राहुल दुबे पुत्र विजयबहादुर निवासी ग्राम निदौली थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज को पूर्व प्रधान नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी के घर से अपने आवास छिबरामऊ जाते समय 01. दीपू उर्फ सुमित बाबू पुत्र रामेश्वर व 02. टुरी उर्फ जितेन्द्र पुत्र उदयवीर निवासीगण ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज क्षेत्र के ग्राम रैपुरा मोड़ पर गोली मारने की घटना पर मजरूब के भाई चमनप्रकाश निवासी ग्राम निदौली थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 53/2021 धारा 307/120बी भा०द०वि० बनाम 1.दीपू उर्फ सुमित बाबू पुत्र रामेश्वर 2. जितेन्द्र कुमार उर्फ टुरी पुत्र उदयवीर निवासीगण ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक 26.05.2021 घटना का षडयन्त्र करने वाले अभि० कुलवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी मधई नगला थाना तालग्राम जनपद कन्नौज का नाम प्रकाश में आया। जिसे दिनांक 27.05.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा नामित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ टुरी पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार कर दिनांक 22.06.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उपरोक्त प्रधान पक्ष व अभि० पक्ष ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं दोनों पक्षों में पूर्व से ही विवाद चल रहा है, जिसमें वर्चस्व को लेकर दोनों पक्ष की आपसी रंजिश चल रही है। दोनों पक्षों के विवाद के कई अभियोग थाना बेवर जनपद मैनपुरी में दर्ज हैं। उपरोक्त घटना में नामित फरार अभि० दीपू उर्फ सुमित बाबू पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी को आज दिनांक 07.07.2021 को गिरफ्तार किया गया व अभि० की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी कर अभियुक्त दीपू उर्फ सुमित बाबू उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 71/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता - दीपू उर्फ सुमित बाबू पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी।



अभि० के कब्जे से बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं०-53/2021 धारा-307/120बी भा०द०वि० थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज
02. मु०अ०सं०- 71/2021 धारा- 3/25/27 आयुध अधि० थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज

गिरफ्तार करने वाली टीन के सदस्य

1. थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश
2. 30नि0 रज्जनलाल
3. का० 836 भूपेन्द्र सिंह
4. का० 1040 गजेन्द्र सिंह
5. का० 985 जितेन्द्र सिंह
6. रि०का० 426 निर्भय दलवाल
7. रि०का० 142 हेमकान्त